

E2E Networks Limited

Low Latency Hosting in India CIN NUMBER - L72900DL2009PLC341980

Regd. Office: Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-411-33905

Email: cs@e2enetworks.com, Website https://www.e2enetworks.com/

August 21, 2021

Corporate Communications Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra-400051

Scrip Symbol: E2E

Sub: Intimation of 12th Annual General Meeting ("AGM") and Copies of Pre-dispatch Newspaper advertisements for convening the AGM through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC" / OAVM")


Dear Sir/Madam,

We wish to inform that pursuant to General Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 4.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility.

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 19, 2021 (9.00 AM IST) and ends on Tuesday, September 21, 2021 (5.00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited thereafter.

The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting rights and attendance at AGM is Wednesday, September 15, 2021.

A copy of the AGM Notice and Annual Report for the financial year 2020-21 shall be filed in due course before the commencement of dispatch of the same to the shareholders of the Company.



E2E Networks Limited

Low Latency Hosting in India CIN NUMBER - L72900DL2009PLC341980

Regd. Office: Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-411-33905

Email: cs@e2enetworks.com, Website https://www.e2enetworks.com/

Further, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements, published in "Financial Express -Delhi Edition" in English and in "Jansatta-Delhi Edition" in Hindi on Saturday, August 21, 2021, both newspapers having electronic editions, in terms of Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating the shareholders of the Company about scheduling the AGM of the Company.

Thanking You,

Yours faithfully,

For E2E Networks Limited

NEHA BAID Digitally signed by NEHA BAID Date: 2021.08.21 19:28:32

Neha Baid Company Secretary Cum Compliance Officer Membership No- 33753

Enclosure: As above

of Security Interest Act 2002.

Facility

Non-fund

Facility

No.

Security

above referred to, without prior written consent of the Bank.

financialexp.epapr.in

No.

Security

Fund based, Primary Security -

मध्य कॉपॅरिट केंद्र, बठिंडा एस.सी.ओ. 29-31, मॉडल टाऊन, फेस - 1, बठिंडा - 151001. ई-मेल: clpc6360@pnb.co.in

Regd. Post Date: 07.05.2021 M/s Sidhivinayak Exports Proprietor Smt. Usha Garg, 2935 Opposite Namdev Marg, GT Road Bhatinda - 151001

SI - 460 Days' Notice to Borrower

Dear Sir. NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement

Reg: Account No. 4451008700000937 of CC facility, NFB facility & 005000CF00000749 of CFITL facility /credit facilities availed by M/s Sidhivinayak Exports. You, M/s Sidhivinayak Exports Proprietor Smt. Usha Garg; 2935 Opposite Namdev Marg, GT Road

| 2. CFITL 70,90,550.00 10.85% | | Rs. 74,34,979.00 Rs. 46,41,16,525.35 | 01.04.2021 | + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if an Rs. 18,70,81,484.35 + further Interest w.e.f. | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | CEITI | Rs. | 40.000 | D- 74 24 070 00 | Further | Rs. 74,34,979.00 | |
| 1. | FB & NFB | Rs. 45,00,00,000.00 | 10.85% | Rs. 45,66,81,546.35 | Further interest w.e.f. 01.04.2021 | Rs. 17,96,46,505.35 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if an | |
| Sr. No. | Facility | cility Limit Rate of Interest | | Balance outstanding as on date of NPA 31.03.2021 (ie., principal + interest) | Interest w.e.f. 01.04.2021 | Total outstanding as on date issuance of Notice 07.05.202 | |

Non Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities, vide letter dated 05.04.2021

The amount due to the Bank as on 07.05.2021 is Rs.18,70,81,484.35 (Rupees Eighteen Crore Seventy Lakh Eighty One Thousand Four Hundred Eighty Four and Thirty Five paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 & other charges, if any until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt"). To secure the outstanding under the above said facilities, you have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets

Hypothecation of stock of goods (Edible oils, Non Edible oils & other goods

acceptable to the bank) lying in the godowns / depots of the party or in transit and all

| | CFITL (COVID Funded Interest Term Loan) | Book Debts. Assignment of documents covering consignment by bill of lading along with shipping documents. |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We | hereby call up | on you to pay the amount of Rs.18,70,81,484.35 (Rupees Eighteen Crore Seventy |
| | | housand Four Hundred Eighty Four and Thirty Five paisa only) with further interest |

w.e.f. 01.04.2021 at the contracted rate & other charges, if any until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank as available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of nonpayment of secured debt by you are as under: Hypothecation of stock of goods (Edible oils, Non Edible oils & other goods acceptable to the bank)

lying in the godowns / depots of the party or in transit. Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in

respect of time available to you to redeem the secured assets. Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice.

secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank.

transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the

You will have to render proper account of such realization/income. *We reserve our rights to enforce other secured assets. Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of noncompliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences.

*This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case *This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court.

> For Punjab National Bank Chief Manager, AUTHORISED OFFICER

Yours faithfully,

| Pup | punjab national bank | मध्य कॉपरिट केंद्र, बठिंडा एस.सी.ओ. 29-31, मॉडत टाऊन, फेस - 1, बठिंडा- 151001. ई-मेत: clpc6360@pnb.co.in | | |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | SI – 4 60 Days' Notice to Guarant Regd. Post | tor/Mortgagor Date: 04.05.2021 | | |

Smt. Anu Jain, Bunglow No 14 SP Jain SUNRISE Park Opp Drive in Road, Ahmedabad-380054, Gujrat Dear Sir, NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement

of Security Interest Act 2002. Reg : Account No. 1813008700003429 of CC facility, NFB facility & 181300CF00000668 of CFITL facility /credit facilities availed by M/s Gurdas Exports.

M/s Gurdas Exports Proprietor Sh Gurdas Garg; Shop No 05 Aggarsain Nagar.Amrik Singh Road Bathinda – 151001 have availed the following credit facilities: Rate of Balance outstanding as on Interest w.e.f. Total outstanding as on date of

| No. | Facility | Limit | Interest | date of NPA 31.03.2021 (ie., principal + interest) | 01.04.2021 | issuance of Notice 04.05.2021 |
|-----|-------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | FB & NFB | Rs. 44,00,00,000.00 | 10.35% | Rs. 41,81,86,824.25 | Further interest w.e.f. 01.04.2021 | Rs. 36,62,73,733.25 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any |
| 2. | CFITL | Rs. 1,48,92,333.00 | 10.75% | Rs. 1,57,40,437.00 | Further interest w.e.f. 01.04.2021 | Rs. 1,57,40,437.00 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any |
| | 1 | TOTAL | | Rs. 43,39,27,261.25 + further Interest | interest was | Rs. 38,20,14,170.25 + further Interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any |

Non Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities from the Borrower, vide letter dated 05.04.2021, copy of which has already been sent to you. We have invoked the guarantee vide letter dated 07.04.2021

The amount due to the Bank as on 04.05.2021 is Rs. 38, 20, 14,170.25 (Rupees Thirty Eight Crore Twenty Lac Fourteen Thousand One Hundred Seventy and Twenty Five paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt").

To secure the outstanding under the above said facilities, Ms Gurdas Exports have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets:

| Non-fund based & CFITL | Primary Security - > Hypothecation of stock of goods (Edible oils & Non Edible oils) lying in the godown depots of the party or in transit and all Book Debts. > Assignment of documents covering consignment by bill of lading along with shipping documents. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (COVID Funded Interest Term Loan) | Collateral security – Immovable properties, mentioned below: EM of Comm vacant plot situated at Opposite Govt School Near Adarsh nagar NH |

16, Goniana Road Bathinda bearing RTD no.8678 dt. 22.01.2008,RTD no 10196 dt 29.02.2008,RTD no 10305 dt. 03.03.2008,RTD no 2597 dt. 01.07.2014,RTD no 2598 dt. 01.07.2014, RTD no 2792 dt. 08.07.2014 in the name of Sh. Kunal Garg S/o Gurdas Garg, Sh. Gurdas Garg S/o Nohar Chand and Smt. Anu Jain W/o Ankit Jain. EM of Comm.vacant plot situated at M.C.no. 2093 Near Bahia Fort, behind Dr. Bajaj Clinic Bathinda bearing RTD no 4240 dt 12.09.2013 & 4241 dt. 12.09.2013, RTD No 4242 dated 12.09.2013 in the name of Sh. Kunal Garg S/o Gurdas Garg. Plot with boundary wall situated at Main Railway Road, Near Fly Over acquired vide Sale Deed No 5454 dated 03.07, 2008 in the name of Kunal Garg So Gurdas Garg. We hereby call upon you to pay the amount of Rs 38, 20, 14,170.25 (Rupees Thirty Eight Crore Twenty

Lac Fourteen Thousand One Hundred Seventy and Twenty Five paisa only) with further interest w.e.f 01.04.2021 at the contracted rate until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank as available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of nonpayment of secured debt by you are as under:

Hypothecation of stock of goods (Edible oils & Non Edible oils) lying in the godowns / depots of the party or in transit and all Book Debts

EM of Comm vacant plot situated at Opposite Govt School Near Adarsh nagar NH-16, Goniana Road

- Bathinda bearing RTD no.8678 dt. 22.01.2008, RTD no 10196 dt.29.02.2008, RTD no 10305 dt. 03.03.2008, RTD no 2597 dt.01.07.2014, RTD no 2598 dt.01.07.2014, RTD no 2792 dt.08.07.2014.in the name of Sh. Kunal Garg S/o Gurdas Garg, Sh. Gurdas Garg S/o Nohar Chand and Smt. Anu Jain W/o Ankit Jain. EM of Comm. vacant plot situated at M.C.no.2093 Near Bahia Fort, behind Dr Bajaj Clinic Bathinda
- bearing RTD no 4240 dt 12.09.2013 & 4241 dt.12.09.2013, RTD No 4242 dated 12.09.2013 in the name of Sh. Kunal Garg S/o Gurdas Garg. Plot with boundary wall situated at Main Railway Road, Near Fly Over acquired vide Sale Deed No
- 5454 dated 03.07.2008 in the name of Kunal Garg S/o Gurdas Garg. Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to you to redeem the secured assets.

Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets

You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render

proper account of such realization/income. *We reserve our rights to enforce other secured assets. Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance

further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences. "This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be. *This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court. Yours faithfully,

> For Punjab National Bank Chief Manager, AUTHORISED OFFICER

SATURDAY, AUGUST 21, 2021 WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Genus energizing lives

GENUS PRIME INFRA LIMITED (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

(CIN: L24117UP2000PLC032010) Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001 (U.P.) Phone: 0591-2511171 | Fax: 0591-2511242 Website: www.genusprime.com | Email: cs.genusprime@gmail.com

Notice of Annual General Meeting and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 21" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Prime Infra Limited ("the Company") is

scheduled to be held on Friday, September 17, 2021 at 11:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent on August 20, 2021 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on website of the Company at www.genusprime.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchange at www.bseindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, and applicable circulars, members holding shares as on the cut-off date i.e. September 10, 2021 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed that: The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 14, 2021 at 9.00 am (IST) and end on Thursday, September 16, 2021 at

5.00 pm (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST) on September 16, 2020.

(iii) It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote e-voting facility. Members have also an option

- to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 10, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during
- the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of AGM for Any person who has acquired shares of the Company and become member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Friday, September 10, 2021 may obtain login ID and password by sending a request to the Company at
- cs.genusprime@gmail.com or to the RTA at rta@alankit.com . However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing login ID and password can be used for casting vote. The shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions
- through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

vii) Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the

- (viii) In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to
- helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. (ix) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022- 23058738 / 022-
- The Company has appointed Ms. Komal, Practicing Company Secretary (ACS No.48168, CP No.17597) (M/s. Komal & Associates), or Delhi, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process prior to the AGM and e-voting during the AGM in a fair and

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 11, 2021 to Friday, September 17, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM. By Order of the Board

> Kunal Navar Company Secretary मध्य कॉपॅरिट केंद्र, बठिंडा

For Genus Prime Infra Limited

Date: 07.05.2021

Rs. 30.00.96.813.84

+ further interest w.e.f.

01.04.2021 01.04.2021 + Charges, if any

(Formerly Gulshan Chemfill Limited)

punjab national bank **₽** .. Together for the better SI - 4 A

Place: Moradabad

Date: August 20, 2021

TOTAL

No.

एस.सी.ओ. 29-31, मॉडत टाऊन, फेस - 1, बठिंडा - 151001. ई-मेल: clpc6360@pnb.co.in 60 Days' Notice to Guarantor/Mortgagor

Regd. Post

M/s VRC Township Private Limited, First Floor, plot no. 16, Paschim Vihar Ext., Rohtak Road,

interest w.e.f.

Paschim Vihar, Delhi, West Delhi – 110063 Dear Sir. NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

Reg : Account No. 0050008700009247 of CC facility, NFB facility & 005000CF00000767 of CFITL facility /credit facilities availed by M/s Vinayak Agro.

M/s Vinayak Agro Proprietor Mrs. Simmy Garg; 2935 Opposite Namdev Marg, GT Road, Bhatinda 151001 have availed the following credit facilities:

| Sr. No. | Facility | Limit | Rate of Interest | Balance outstanding as on date of NPA 31.03.2021 (ie., principal + interest) | Interest w.e.f. 01.04.2021 | Total outstanding as on date of issuance of Notice 07.05.2021 |
|------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | FB & NFB | Rs. 38,00,00,000.00 | 12.00% | Rs. 35,60,80,866.84 | Further interest w.e.f. 01.04.2021 | Rs. 29,19,06,219.84 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any |
| 2. | CFITL | Rs. 78,11,162.00 | 12.00% | Rs. 81,90,594.00 | Further interest w.e.f. 01.04.2021 | Rs. 81,90,594.00 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any |

Due to nonpayment of installment/ interest/ principal debt, the account/s has/have been classified as Non Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities from the Borrower, vide letter dated 05.04.2021, copy of which has already been sent to you. We have invoked the guarantee vide letter dated 07.04.2021.

Rs. 36,42,71,460.84

+ further Interest

The amount due to the Bank as on 07.05.2021 is Rs.30,00,96,813.84 (Rupees Thirty Crore Ninety Six Thousand Eight Hundred Thirteen and Eighty Four paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 & other charges, if any until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt"). To secure the outstanding under the above said facilities, you have, inter alia, created security interest in

respect of the following properties/assets: Encility

| Facility | Security | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fund based, Non-fund based & CFITL | Primary Security - > Hypothecation of stock of goods(Edible oils & Non Edible oils) lying in the godowns / depots of the party or in transit and all Book Debts > Assignment of documents covering consignment by bill of lading along with | | | | | |
| (COVID Funded Interest | shipping documents. Collateral security – Immovable properties, mentioned below: | | | | | |
| Term Loan) | Land within Municipal Limits and Commercial Zone as per the Master Plan situated at Malout Road, Near Volkswagen showroom, Bhatinda bearing RTD No. 7820 dt 31.12.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 2191 dt. 11.06.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 9286 dt. 07.02.2008 for 3 Bigha 6 Biswas & RTD No. 6411 dt. 21.11.2007 for 11 Bigha 0.71 Biswas: Total Land measuring 53 Bighas 8.71 Biswas in | | | | | |

the name of M/s VRC Township private limited. Plot No. 141, Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.58 square yards bearing Title Deed No. 7622 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 142 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7623 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 143 Part I & II. Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7621 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 144 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7620 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 145 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7719 dated 19.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot MCB Z-3 04783 measuring 336.75 square yards (263.25 square yards vide RTD No. 2833 dated 22.05.2008 and 73.50 square yards vide RTD No. 2834 dated

22.05.2008) situated at New Vishal Nagar, Opp. Suraj Giri Ji Mandir, New Shakt

Nagar, Bhatinda in the name of Sh. Kunal Garg. We hereby call upon you to pay the amount of Rs.30,00,96,813.84 (Rupees Thirty Crore Ninety Six Thousand Eight Hundred Thirteen and Eighty Four paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 at the contracted rate & other charges, if any until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of nonpayment of secured debt by you are as under:

Hypothecation of stock of goods(Edible oils & Non Edible oils) lying in the godowns / depots of the Land within Municipal Limits and Commercial Zone as per the Master Plan situated at Malout Road.

Near Volkswagen showroom, Bhatinda bearing RTD No. 7820 dt 31.12.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 2191 dt. 11.06.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 9286 dt. 07.02.2008 for 3 Bigha 6 Biswas & RTD No. 6411 dt. 21.11.2007 for 11 Bigha 0.71 Biswas; Total Land measuring 53 Bighas 8.71 Biswas in the name of M/s VRC Township private limited. Plot No. 141, Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.58 square yards bearing Title Deed

No. 7622 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 142 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No.

Plot No. 143 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed

- 7623 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.
- No. 7621 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 144 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266,66 square yards bearing Title Deed No. 7620 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.
- Plot No. 145 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7719 dated 19.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.
- Plot MCB Z-3 04783 measuring 336.75 square yards (263.25 square yards vide RTD No. 2833 dated 22.05.2008 and 73.50 square yards vide RTD No. 2834 dated 22.05.2008) situated at New

Vishal Nagar, Opp. Suraj Giri Ji Mandir, New Shakti Nagar, Bhatinda in the name of Sh. Kunal Garg. Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to you to redeem the secured assets.

Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the

said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization/income. "We reserve our rights to enforce other secured assets.

Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences. "This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be.

This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court.

Yours faithfully,

For Punjab National Bank Chief Manager, AUTHORISED OFFICER

New Delhi

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

NOTICE is hereby given that Share Certificate No. 21209 for 100 shares bearing distinctive nos. 3447241 5 3447340 (both inclusive) comprised in Folio No. 0017536 of Sharat Rasayan Limited having its egistered Office at 1501 Vikram Tower, Rajedra Place, New Delhi registered in the name of Mr. Darshan

have now applied to the Company for issue of duplicate share certificate in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate in lieu of said original share certificate, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, in writing, within 15 days from the date of publication of this

> Name & Address of the Shareholder Sh. Darshan Singh S/o Sh. Rachan Singh, Village and Post office, Seh, Tehsil Samrala, District Ludhiana- 141417 Punjab

JINDAL STEEL & POWER LTD

Regd. Office: O P Jindal Marg, Hisar , Haryana, 125005 Corporate office Tower B, 4th Floor, Plot No. 2, Sector- 32, Gurgaon- 122001

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOS3 CIR/P/2018/139 dated 6th November 2018, the Company has received requests rom the following transferee(s)to transfer the below mentioned securities held in the name(s) of the security holder(s) mentioned there against as detailed below, to his her/their name(s). These securities were claimed to have been purchased by him / her / them and could not be transferred in his/her/their favour.

Name(s) Security Number of Share Distinctive Name(s)

| NO. | Holder(s)/ Transferor | and Face Value | Securities | No(s) | From - To | Transferee (s) |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 405811 | Nirmala Aggarwal /Rakesh Kumar | EQUITY 1/- | 1800 | 505986 | 171830197- 171831996 | Rakesh Aggarwal |
| 406046 | Kamlesh / Anita Bansal | 1 | 1800 | 506008 | 171868897- 171870696 | Nirmal Aggarwal |
| 406043 | Ashwani Gupta/ Raj Kumar Aggarwal | 1 | 1800 | 506007 | 171867097- 171868896 | Chirag Aggarwal |

Any person who has a claim in respect of the above mentioned securities, should lodge such claim with the company at its Registered Office, Corporate office within 30 days from this date along with appropriate documentary evidence thereof in support of such claim, else the company will proceed to transfer the securities in avour of the above proposed Transferee(s), without any further intimation. Place: Hisar Haryana for Jindal Steel & Power Ltd

Date: 20.08.2021 (Company Secretary) E2E Networks Limited



Place: Chandigarh

Date :20-08-2021

CIN: L72900DL2009PLC341980 Regd. Office: Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate,

Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-39235393 Email: investors@e2enetworks.com, Website: https://www.e2enetworks.com

NOTICE OF THE 12™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO - VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of E2E Networks Limited ("E2E"/"Company") will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 4:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening Considering the continuing COVID-19 pandemic, in terms of the General Circulars

No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08. 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), companies are permitted to conduct the Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC" / "OAVM") till December 31, 2021, without the physical presence of members at a common venue. Hence, in accordance with the Circulars, provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the 12th AGM of the Company is being held through VC/OAVM on Wednesday, September 22, 2021, at 4,00 p.m.

The Annual Report including the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 along with Notice of the AGM will be sent only to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with the respective Depositary Participants in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 ("SEBI Circular"). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2020-21 will also be available on the Company's Website https://www.e2enetworks.com/, website of the stock exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited Emerge Platform and website of Link Intime India Private Limited (RTA) at www.linkintime.co.in. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members participating through VC/QAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The manner of participation in the remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Members holding the shares in physical and demat form who have not registered their e-mail addresses with the Company/RTA or with the respective Depository Participants can temporarily get their email IDs registered with the Company by emailing at investors@e2enetworks.com and follow the temporary registration process as guided thereafter, on or before Wednesday, August 25, 2021 to receive the Notice of AGM and Annual Report for the year 2020-21 through email and/ or attending the AGM through

from Thursday, September 16, 2021 to Wednesday, September 22, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed

The Notice of AGM and Annual Report 2020-21 will be sent to shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For E2E Networks Limited

Date: August 20, 2021 Place: New Delhi

Company Secretary Cum Compliance Officer BAID LEASING AND FINANCE CO. LTD. Regd. Office: "Baid House" IInd Floor, 1, Tara Nagar, Aimer Road, Jaipur-06 • Ph.: 9214018855

E.: baidfinance@baidgroup.in • W.: www.balfc.com, CIN: L65910RJ1991PLC006391 NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

NOTICE IS HEREBY given that 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Baid Leasing and Finance Co. Ltd. ("the Company") will be held on Wednesday, 15th Day of September. 2021 at 03:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") | Other Audio Visual Means ("DAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated Tuesday, June 22, 2021 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and

Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 02/2021, 14/2020,

17/2020 20/2020, dated January 13, 2021, April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020

collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose f augrum under section 103 of the Act. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent to all the members on Friday, August 20, 2021 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of notice of

AGM and Annual Report to the Members have been dispended with vide MCA Circulars and SEBI NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 09, 2021 to Wednesday, September 15, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday,

September 15, 2021 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("DAVM") and Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing e-voting facility to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be

ransacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means n this regard, the Members are hereby further informed that: (a) The remote e-voting period shall start at 10:00 A.M. on Saturday, September 11, 2021 and shall end at 05:00 P.M. on Tuesday, September 14, 2021. The remote e-voting shall not be

allowed after 05.00 P.M. on Tuesday, September 14, 2021. The same will be disabled by A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Record/cut-off date i.e. Wednesday, September 08, 2021 only shall be entitled for Dividend and to avail the facility of remote e-

voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM. any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 08, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk

evoting@cdsindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote evoting then existing user ID and password can be used for casting vote. Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again

Any query/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may refer the

The Notice of AGM and the Annual report for the financial year 2020-21 is available on the Company's website www.balfc.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.

Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (022-23058542/43), CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 email: helpdesk.evoting@cdslindia.com. For Baid Leasing and Finance Co. Ltd

Panna Lal Baid

Place : Jaipur Date: August 20, 2021 Chairman & Managing Director (DIN: 00009897)

फोन : 011-45090162, E-mail ID : jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.jtel.co.in

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयरधारकों की अड़तीसवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार,

16 सितम्बर, 2021 को 11.30 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजी. कार्यालय : 208, मैग्नम हाउस-II, करमपुरा कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110015 में आयोजित की जायेगी जिसमें ऐसे सदस्यों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त

वित्त वर्ष के लिये कम्पनी की अंकेक्षित लेखाओं, रिपोर्ट्स के साथ भेजी गई सूचना में शामिल विवरणों के अनुसार

उक्त समेकित वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.msei.in) तथा कम्पनी की वेबसाईट

(www.itel.co.in) के साथ हीं साथ एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को व्यावसायिक अवधि के दौरान

यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) के द्वारा सभा में पारित होने के लिये प्रस्तावित प्रस्तावों पर सदस्यों

को मताधिकार के प्रयोग की सविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण सभा के अन्यत्र के किसी स्थान से इलेक्टॉनिक

वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध

कराने के लिये कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को एजेन्सी के रूप में

अन्य बातों के अलावे यूजर आईडी तथा पास्वर्ड से शामिल रिमोर्ट ई-वोटिंग के निर्देशों सहित एजीएम के आमंत्रण

की सूचना की प्रति सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजी गई है। एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के

कम्युनिकेशन का प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.msei.in), सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग तथा

एजीएम के दौरान उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) www.evotingindia.com, कम्पनी के आरटीएएसटीए

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 सितम्बर, 2021 को 10.00 बजे पूर्वः (आईएसटी) में शुरू होगी तथा बुधवार, 15

सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 1 सितम्बर, 2021 को सदस्यों के पंजी में शामिल होगा,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015

समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक गुरुवार,

9 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 16 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सिहत) तक कम्पनी की 38वीं वार्षिक साधारण

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन

अपेक्षा) विनियमन, 2015, यथा-संशोधित के विनियमन 44(6) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की

धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी में एजीएम की रिमोट ई-वोटिंग द्वारा विडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य

ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एजीएम में शामिल होने के लिये अधिकृत

सदस्य ई-वोटिंग के लिये उपलब्ध कराई गई अपनी सुरक्षित लॉगिन विवरणों का उपयोग करते हुए ई-वोटिंग

स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिये निदेशक मंडल ने

डी.पी. गुप्ता, मै. एसजीएस एसोसिएट्स (कम्पनी सेक्नेट्रीज फर्म), पंजी. सं. एफ 2411 तथा सीपी नं. 1509 को

पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पर्यवेक्षक ई-वोटिंग की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद किन्तु अधिकतम 19 सितम्बर,

2021 को व्यावसायिक अवधि की समाप्ति तक यथा शीघ्र अपना अंतिम रिपोर्ट जमा करेंगे। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट

ई-वोटिंग, विडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी) तथा अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के निर्देशों के लिये शेयरधारक

सीडीएसएल की वेबसाईट (www.evotingindia.com), आरटीए/एसटीए (www.skylinerta.com)

कम्पनी से समय पर सूचना प्राप्त करने के लिये कृपया डीपी/आरटीए-एसटीए/कम्पनी के पास अपना पंजीकृत

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों, मुद्दों अथवा समस्याओं के लिये सदस्य सहायता खंड के अंतर्गत्

www.evotingindia.com पर उपलब्ध एफएक्यू तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा

वेबसाईट https://evotingindia.com पर लॉगिंग कर एजीएम की कार्यवादियों को देख सकते हैं।

के साथ इन परिणामों को तत्काल स्टॉक एक्सचैंज-एमएसईआई को अग्रसारित किया जायेगा।

(www.skylinerta.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.jtel.co.in) पर भी उपलब्ध है।

केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा जिनके ईमेल पते आरटीए/डीपी/कम्पनी के पास पंजीकृत हैं।

निरीक्षण के लिये कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

तिरुवनंतपुरम, 20 अगस्त कोविड के कारण इस साल (भाषा)। पौराणिक कथाओं के सकेंगे 'महाबली'

भी लोगों के घर नहीं जा

नक्सली हमले में

आइटीबीपी के

सहायक सेनानी

समेत दो शहीद

नारायणपुर (छत्तीसगढ़), 20 अगस्त

राज्य के नक्सल प्रभावित

नारायणपुर जिले में नक्सली हमले

में भारत तिब्बत सीमा पुलिस

(आइटीबीपी) के दो पुलिसकर्मी

नारायणपुर जिले के पुलिस

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया

कि जिले के छोटेडोंगर थाना क्षेत्र

के अंतर्गत आईटीबीपी के

कड़ेमेटा शिविर के करीब

माओवादियों ने सुरक्षाकर्मियों पर

हमला कर दिया है। इस हमले में

सहायक सेनानी सुधाकर शिंदे

और सहायक उप निरीक्षक गुरमुख

कि दोपहर लगभग 12:10 बजे

आईटीबीपी की 45वीं बटालियन

की ई कंपनी को गश्त पर रवाना

बताया कि दल के जवान जब

शिविर से छह सौ मीटर की दुरी

पर थे तभी नक्सलियों ने गोलीबारी

शुरू कर दी। हमले में शिंदे और

अधिकारियों ने बताया कि

हमले के बाद माओवादी एक

एके-47, दो बुलेट प्रूफ जैकेट व

एक वायरलेस सेट लूट कर ले गए

हैं। उन्होंने बताया कि घटना की

जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त

सुरक्षा बलों को घटनास्थल के

लिए रवाना किया गया है और

हमलावर नक्सलियों की खोज

उत्तराखड पहुंचे

नड्डा, मंत्रियों के

साथ बैठकें

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय

अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड

के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे।

उनका जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर

सिंह धामी और भाजपा के

कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत

किया। रास्ते में भारी बारिश के

बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह और

हरिद्वार के एक होटल में जेपी

गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

नड्डा दो दिन तक भाजपा के प्रदेश

नेताओं मुख्यमंत्री और उनके

मंत्रिमंडल के सदस्यों और भाजपा

की विभिन्न विंग के पदाधिकारियों

के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रहे

हैं। कल शनिवार को जेपी नड्डा

साधु-संतों से आशीवीद लेंगे, पूर्व

सैनिकों से मिलेंगे। 2022 के

विधानसभा चुनाव की तैयारियों

को लेकर नड्डा का यह दौरा

भाजपा की प्रदेश सरकार और

प्रदेश संगठन की नब्ज

टटोलनेऔर जनता की राय जानने

के लिए बताया जा रहा है। इस

दौरान वे साधु-संतों और पूर्व

जगत प्रकाश नड्डा एवं मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के

एक स्थानीय होटल में उत्तराखंड

के विकास पर आधारित पुस्तक

उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ

पर एवं युवा प्रदेश युवा नेतृत्व

विकल्प रहित संकल्प पत्रिका का

विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार

की जन कल्याणकारी योजनाओं,

महत्वपूर्ण निर्णयों और केंद्र

सरकार के सहयोग से उत्तराखंड

में हो रहे कार्यों की जानकारी भी

इस पत्रिका में दी गई है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

सैनिकों से भी मिलेंगे।

भाजपा

का जगह-जगह

पुलिस अधिकारियों ने बताया

सिंह शहीद हो गए हैं।

किया गया था।

सिंह शहीद हो गए।

शुरू कर दी गई है।

जनसत्ता संवाददाता

देहरादून 20 अगस्त।

शहीद हो गए हैं।

अनुसार असूर राज महाबली ने हर साल वार्षिक 'तिरू ओणम' दिवस पर प्रजा से मिलने का भगवान विष्णु

बैंक ऑफ बड़ौदा, 10203, भूतल, जमना हाऊस,

Bank of Baroda पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005. क फोन: 011-28752445, 28757232

नियम 8(1) के तहत (अवल सम्पत्ति के लिए) जबकि, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसुचित समामेलन योजना के अनुसरण में, बित्तीय सेवा विभाग द्वारा 02.01.2019 को जी.एस.आर. नं.2(ई) 01.04.2019 से वेजया बैंक को बैंक ऑफ बहौदा के साथ विलय कर दिया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्ताबेजों के साथ-साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक के पक्ष में सुरक्षा व्याज बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थानान्तरित और निहित है।

और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमार्ण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली गाखा के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने माँग सूचना तिथि 06.05.2021 जारी कर मैसर्स शक्ति इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन भागीदारों द्वारा प्रतिनिधित्व (1) श्री संजीव मदान पुत्र स्व० श्री आर.एस. मदान एवं (2) श्रीमती स्वीटी मदान पत्नी श्री राजीव मदान 2373/1, गोपीनाथ बिल्डिंग, जी.बी रोड, दिल्ली, को सूचना में उल्लिखित राशि रू.1,74,35,289.07 (एक करोड़ चीहत्तर लाख पैतीस हजार दो सौ नवासी रूपये सात पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों की भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज 16 अगस्त, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय स.1,74,35,289.07 (एक करोड़ चौहत्तर लाख पैतीस हजार दो सौ नवासी रूपये सात पैसे मात्र) एवं 30.04.2021 से ब्याज एवं प्रभार के साथ, बैंक ऑफ बहौदा, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भगतान के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि एवं भवन की सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो यहाँ स्थित है: (1) नं. जीए-14 पर आबासीय सम्पत्ति, 335.50 वर्ग मीटर शिवाजी एन्क्लेव नई दिल्ली-110015 में भूमि और उस पर निर्माण।

(2) हैमिल्टन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में स्थित दकान संख्या 609-615 पर 168 वर्ग गज की वाणिज्यिक सम्पत्ति।

तिथिः 16.08.2021

(ब्रिज मोहन) प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बहोदा, 10203, भूतल, जमना हाऊस, Bank of Baroda पदम सिंह रोड, करोलवाग, नई दिल्ली-110005. 🗩 🖶 फोन: 011-28752445, 28757232

नियम 8(1) के तहत (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसुचित समामेलन योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 02.01.2019 को जी.एस.आर. नं.2(ई) 01.04.2019 से विजया बैंक को बैंक ऑफ बहौदा के साथ विलय कर दिया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक के पक्ष में सुरक्षा ब्याज बैंक ऑफ बहौदा में स्थानान्तरित और निहित है। और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमार्ण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली शाख के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने माँग सूचना तिथि 06.05.2021 जारी कर मैसर्स शक्ति रोलर सिस्टम भागीदारों द्वारा प्रतिनिधित्व (1) श्री सबीर मदान एवं (2) श्री राजीव मदान, एए-1, गली नं 4. आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110005, को सूचना में उल्लिखित राशि रू 2,67,33,366.50 (दो करोइ सइसठ लाख तैतीस हजार तीन सौ ष्ठियासठ रूपये पचास पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों की भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथ आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज 16 अगस्त, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतदृहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू.2,67,33,366.50 (दो करोड़ सड़सठ लाख तैतीस हजार तीन सौ छियासठ रूपये पचास पैसे मात्र) एवं 31.05.2021 से ब्याज एवं प्रभार के साथ, बँक ऑफ बड़ौदा, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की घारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि एवं भवन की आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो आवासीय सम्पत्ति सं जीए-14 पर स्थित, परिमाप 335.50 वर्ग मीटर शिवाजी एन्क्लेव, नई दिल्ली-110015 मे भूमि एवं निर्माण।

तिथि: 16.08.2021 स्थानः दिल्ली

(ब्रिज मोहन) प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ीदा

| | | प्रपत्र ख जनिक घोषणा | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | ोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) , 2016 का विनियम 12] | | | | | |
| क्र.सं. शीर्ष विवरण विवरण | | | | | | | |
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | ग्रीनलाइन बिल्डर्स लिमिटेड | | | | | |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 25/04/2005 | | | | | |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली | | | | | |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U45201DL2005PLC135267 | | | | | |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | पंजीकृत कार्यालय : 106, पाल्को हाउस, टी/10 मेन पटेल नग नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110008, भारत | | | | | |
| 6. | ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया की अन्तिम तिथि | म 18.08.2021 | | | | | |
| 7. | कार्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभन की तिथि | 18.08.2021 (एनसीएलटी आदेश एनसीएलटी की वेबसाइट से परिसमापक द्वारा 20.08.2021 को डाउनलोड किया गया) | | | | | |
| 8. | परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या | नाम : मोहम्मद नाजिम खान पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207 दूरभाष : +91-11-45095230 | | | | | |
| 9. | बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता तथा ई–मेल | पता : जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ई-मेल पता : nazim@mnkassociates.com | | | | | |
| 10. | परिसमापक के साथ होने वाले पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल | पता : जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ई-मेल पता : 1. cirp.greenline@gmail.com | | | | | |

रतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ IV ने 18 अगस्त 2021 को ग्रीनलाइन बिल्डर्स लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। एतद्वारा ग्रीनलाइन बिल्डर्स लिमिटेड के हितधारकों को मद सं. 10 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 17 सितम्बर, 2021 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सर्भ लेनदार अपने संबंधित प्रपत्रों में अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथव

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्रासंगिक परिपत्र https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध हैं। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

तिथि : 20 अगस्त, 2021

स्थान : नई दिल्ली (परिसमापक)

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IVA) (नियम 8(6)) कर्जदार/रों से बकाया राशि की वसली हेतु वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पुर्व का इण्डिंग इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेंड (आईआईएफएल एचएफएल) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहाँ नीचे उल्लिखित प्रतिभृत आस्ति का कब्जा लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा, जो कब्जे के अधीन है

| ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द लिफाफों में प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं जिसके विवरण निम्नलिखित हैं : | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| कर्जदार(रों)/सह- | माँग सूचना की तिथि तथा राशि | अचल सम्पत्ति∕! | प्रतिभूत आस्ति का विवरण | भौतिक कब्जे की तिथि | | |
| कर्जदार(रों)⁄ जमानती(यों) के नाम | 20-दिस2019, रु. 12,18,670/- (रुपये बारह लाख | सम्पत्ति फ्लैट सं. 11, एलआईजी ब्लॉक–सी9, पॉकेट–4, द्वितीय तल, सेक्टर–34, रोहिणी, दिल्ली (क्षेत्रफल : 355 वर्ग फीट) | | 01—फर.—2021 | | |
| श्री राम नरेश श्री सर्वेश कुमारी | अट्ठारह हजार छः सौ सत्तर मात्र) | आरक्षित मूल्य जमा | धरोहर राशि (ईएमडी) | 19-अग2021 तक कुल बकाया | | |
| (प्रॉस्पेक्ट नं. 729404) | | रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) | रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) | रु. 13,75,622/- (रुपये तेरह लाख पिचहत्तर हजार छः सौ बाईस मात्र) | | |
| कर्जदार(रों)∕सह- | माँग सूचना की तिथि तथा राशि | अचल सम्पत्ति∕! | प्रतिभूत आस्ति का विवरण | भौतिक कब्जे की तिथि | | |
| कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) | 09-दिस2019, | | ल, ब्लॉक सी3, पॉकेट 2, सेक्टर-34, रोहिणी, | | | |
| के नाम | | दिल्ली, उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली-110 | 085 का सम्पूर्ण भाग (क्षेत्रफल : 355 वर्ग फीट) | 19-अग2021 तक | | |
| 1. श्री मनोज सिंह केमवाल | तेईस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) | आरक्षित मूल्य | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) | कुल बकाया | | |
| 2. श्री सुनी केमवाल (प्रॉस्पेक्ट नं. 739267) | | Rs. 10,00,000/- (रुपये दस मात्र) | लाख Rs.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) | रु. 16,44,658/- (रुपये सोलह लाख चौवालीस हजार छः सौ अट्ठावन मात्र) | | |

अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 06-सित.-2021,1100 बजे-1400 बजे, इंएमडी की अन्तिम तिथि : 09-सित.-2021 को 5 बजे अप. तक, नीलामी की तिथि/समय : 13-सित. -2021, 1100 बजे-1300 बजे

सम्बन्धित शाखा : आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट नं, 30/30ए, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ रोड, जगआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली (सम्पर्क व्यक्ति

नियम एवं शर्तें . अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 6 सितम्बर, 2021 को 1100 बजे - 1400 बजे तक है।

www.readwhere.com

. ईएमडी सहित निर्धारित निविदा प्रपत्र में महरबन्द प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 9 सितम्बर, 2021 को 5 बजे अप. तक शाखा कार्यालय के पते पर है। . सम्पत्ति हेतु प्रस्ताव के खुलने की तिथि 13 सितम्बर, 2021 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय पते पर 1100 बजे–1300 बजे तक है। निवदा अधिकृत प्राधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी।

. सुचना में बकाया राशि पर ऋण अनुबन्ध के अनुसार यथाप्रयोज्य भावी ब्याज प्रभारित किया जायेगा तथा आकरिमक व्यय, लागतें आदि किसी आकरिमक प्रभारों को छोड़कर इसकी वसुली तक बकाय

. 5. एतद्वारा कर्जदार तथा जमानती को सूचना दी जाती है कि वे बिक्री के समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री के नियम एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार यहां ऊपर वर्णित अचल सम्पित की खरीद हेतु इच्छुक क्रेता/क्रेताओं को ला सकते हैं। कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम (1) के उपनियम 9 के तहत 15 दिवसीय बिक्री सूचना दी जाती है कि वे नीलामी तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि अदा कर दें जिसगें

असफल होने पर अचल सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और शेष, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागतों सहित वसूल किया जायेगा। यदि कर्जदार बिक्री की तिथि से पूर्व पूर्ण रूप से आईआईएफएल होम '. इच्छुक क्रेता इस सुचना के माध्यम से बेची जा रही प्रतिभृत आस्ति के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्वतन्त्र पृछताछ/इयु डिलिजेंस संचालित कर सकते हैं।

. ईएमडी गुरुग्राम में देय ''आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डीडी के माध्यम से देय होगा और इसे सम्बन्धित शाखा/कॉर्पोरेट कार्यालय में जमा करना होगा। . नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्ते निर्धारित निविदा प्रपत्र में संलग्न हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उपलब्ध है अथवा आप https://www.iifl.com/home-loans/prope

10. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम संविदाकार को की जायेगी। हालांकि अधोहस्ताक्षरी को यदि आवश्यक प्रतीत हो तो इंटर-से बोली की अनमति देने का पर्ण विवेकाधिकार है।

11. जो निविदाएँ पूर्ण रूप से नहीं भरी हैं अथवा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध निविदा माना जायेगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा 12. कम्पनी सम्पत्ति पर किसी उस दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं है जो कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : श्री विजय कुमार, मोबाइल : 9811562664, ई-मेल : vijay.kumar@iifl.com, कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा-स्थान : दिल्ली तिथि : 21 अगस्त, 2021 ह./- अधिकत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में महाबली वास्तव में ओणम के अवसर पर उसी तरह के वेशभूषा वाले अभिनेताओं के रूप में गांव के

से वरदान प्राप्त किया था।

प्रत्येक घर में जाते हैं, जहां उनका स्वागत पारंपरिक दीपों और अक्षत से भरे बर्तनों से किया जाता है। इसके बदले महाबली परिवार के सदस्यों पर आशीर्वाद देते हैं।

पंजाब मेशनल बेंक 🕒 punjab national bankthe name you can BANK uponl

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट – ई, मयूर विहार, फेज-11, दिल्ली-110091 ईमेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289 कब्जा सूचना प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र ईस्ट दिल्ली (पूर्व में** आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-11, दिल्ली-110091 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्शित) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार मैसर्स आरडी फाउंडेशन ग्रूप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (ए/सी नं. 3927009300009578) को मांग नोटिस दिनांक 03.04.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 87.07,774.06 (रु. सतासी लाख सात हजार सात सौ चौहत्तर और पैसे छः मात्र) (दिनांक 03.04.2021 तक ब्याज की गणना) और चुकौती की तिथि तक वसूली घटाकर **और भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 18.08.2021 को कब्जा ले लिया

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब** नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेंट-ई, मयूर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091 के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 87,07,774.06 (रु. सतासी लाख सात हजार सात सौ चौहत्तर और पैसे छः मात्र) (दिनांक 03.04. 2021 तक ब्याज की गणना) और चुकौती की तिथि तक वसूली घटाकर और भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सान्यिक बंधक भूमि एवं भवन खाता नं. 78, 174, 316, 354, खसरा नं. 646, 631, 614, 644 एनएच 58, गाँव कदराबाद, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, यू.पी. – 201201 में रिथत, चीहदी पुरब में – रेलवे लाईन और खेतीहर भूमि, पश्चिम में – प्रवेश / मेन जी.टी. रोड(एनएच-34), उत्तर में – हॉस्पिटल / डेंटल मेडिकल कॉलेज, दक्षिण में – खेतीहर भूमि

दिनांक : 18.08.2021, स्थानः दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

डा. फ्रेश एसेट्स लि.

CIN: L74899DL1990PLC042302 पंजी. कार्यालयः बी/1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल, एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044

टेली. नं. 91-11-41679238, फैक्स नं. 91-11-26940969, ईमेलः drfresh@drfreshassets.com, वेबसाईटः www.drfreshassets.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग के विषय में सुचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) रविवार 26 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों तथ उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उदघाट अपेक्षा) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साधारण सर्क्युलर्स तिथि 8 अप्रैल, 2020 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए सर्क्युलर्स') तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 ('सेबी सर्क्युलर') के अनुपालन में किसी सामूहिक स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा ही एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी संबंधित सर्क्युलर के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा निदेशकों के रिपोर्ट, ऑडिटरों के रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किये जाने के लिये वांछित अन्य दस्तावेजों के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 केवल ईमेल द्वारा कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेर पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकृत होंगे।

उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी को वेबसाईट अर्थात् www.drfreshassets.com तथा स्टॉक एक्सचैंज जह कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट अर्थात् www.msei.in के साथ ही नेशनल साथ सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। 19 सितम्बर, 2021 तक शेयर धारण करने वाले सदस्य तथा कम्पनी के साथ अपना ई-मेल पता अनपलब्ध होने के कारण वार्षिक रिपोर्टकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त न करने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में दिये जाने वाले निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करके अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं ई-वोटिंग द्वारा मतदान का तरीकाः

क. सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') द्वारा एजीएम की सूचा में निर्दिष्ट व्यवसाये पर अपना मतदान करने का अवसर होगा।

ख. डि.मैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति. भौतिक पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के द्वारा रिमोट वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') की प्रक्रिय एजीएम की सुचना में दी जायेगी।

एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगा तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे। ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने का लागिन क्रेडिन्शियल्स ईमेल द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिये उसी लागिन क्रेडेन्शियल्स का उपयोग किय

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एजीएम शामिल होने/ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिये लॉगिन विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये नीचे दिये गये निर्देशों को पालन करें:

क) भौतिक धारिताः कृपया अपने फोलियों नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एंव बैंक) र्क स्कैन प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापि स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति drfresh@drfre shassets.com पर कम्पनी के ईमेल पते पर अथवा मास सर्विसेस लि. कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट, (आरटीए) के ई-मेल आईडी mas serv@yahoo.com पर भेजें।

ख) डिमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमैट खाते में अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराऐं।

ग) कम्पनी किसी लाभांश की घोषणा नहीं कर रही है। घ) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपनी धारिता डीमैट प्रारूप में परिवर्तित करन होगी क्योंकि सेबी द्वारा भौतिक प्रारूप में शेयरों का अन्तरण निषिद्ध है।

सदस्यों से आग्रह है कि, एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान की प्रक्रिया का सावधार्न पूर्वक अध्ययन कर लें।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर सं डा. फ्रेश एसेट्स लि विजय प्रकाश पाठक पूर्ण-कालिक निदेशव

DIN:07081958

तिथि: 14.08.2021

स्थानः नई दिल्ली



पर्जी. कार्यालयः एडब्ल्यूएफ आईएस, प्रथम तल, ए-24/9, मोहन कोऑपरेटिव

इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, साहिबाबाद, नई दिल्ली-110044, फोन: 91-11-39235393 Email: investors@e2enetworks.com, Website: https://www.e2enetworks.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित

होने वाली 12वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड (''ई2ई''/ ''कम्पनी'') के सदस्यों की

12वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप (आईएसटी) में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम)' से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा कोविड-19 महामारी पर विचार करते हुए, कम्पनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और साधारण सर्क्युलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 (यहां के बाद सामूहिक रूप से "एमसीए सर्क्युलर्स'' वर्णित) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी सर्क्युलर सं सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 1/ पी/ 2020/ 79 तिथि 12 मई, 2020 और सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 2/ पी/ 2020/ 79 तिथि 11 जनवरी, 2021 के अनुसार कम्पनियों को किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्ञुअल साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक संचालित करने की अनुमति दी है। अतः परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के अनुसार कम्पनी की 12वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी सर्क्युलर दिनांक 12 मई, 2020 (''सेबी सर्क्युलर'') के अनुसार एजीएम की सूचा सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/ रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (''आरटीए'') अथवा सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट https://www.e2enetworks.com/, स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड Emerge platform: www.nseindia.com तथा लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (''आरटीए'') https://www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में प्रावधानित होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम, की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सभी

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम (''ई-वोटिंग'') के माध्यम से भी मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से भाग लेने की रीति एजीएम की सुचना में उपलब्ध कराई जायेगी।

भौतिक या डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल पते कम्पनी/आरटीए या सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे investors@e2enetworks.com पर ई-मेल भेजकर तथा उसके पश्चात निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करके बुधवार, 25 अगस्त, 2021 तक अपने ई-मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं ताकि वे ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकें तथा/अथवा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकें। एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट2020-21 शेयरधारकों के पास उचित समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर प्रयोज्य कानूनों के अनुसार भेज दी जायेगी।

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के लिये

तिथि: 20 अगस्त, 2021 स्थानः नई दिल्ली

नेहा बैद कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

लेकिन कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष ये पारंपरिक लोक कलाकार वार्षिक 'तिरू ओणम' के मौके पर शनिवार को दशकों पुरानी

ऋण वसूली न्यायाधिकरण—। दिल्ली चीबी मंजिल जीवन तीत भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 ओए. नंबर 346 / 2020 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आवेदक बनाम

जीएच-04वी 1. सेक्टर १६ नीएडा-201307 यह भी -श्रीमती तरलजीत कीर पुत्र श्री भुद्र सिंह कार्यातर का पता टेटा पाक इंडिया जा लिमिटेड खेएलएक साइब पैलेस, बिल्डिय नंबर 5. टावर सी, 16वीं मंजिल गुझाव-122002। 2 थी प्रीत मोहन सिंह नंदा डब्ल्यू/ओ श्री तरनजीत कौर निवासी सी-कर, जगपुरा थी न्यू दिल्ली-110,014 यह थी -श्री प्रीत मोहन सिंह नंदा डब्ल्यू/ओ श्री तरनजीत कौर निवासी फलेट नंबर 2006, 20वाँ मंजिल, टावर-सी, मनीरथ, प्लॉट नंबर जीएच-04थी 1, सेक्टर 16,

ल्लभगढ रोडलाइन्स शॉप नंबर 12, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स संकटर –5, नोएडा–201301 3. मैसर्स शुभकर सोही होम्स प्रा लिमिटेड, जिसका प्रधान कार्यालय सीही हाउस में हैं, पूनीट नंबर 69, ज्ञान खंड–1.

इंदिरापुरम् गाजियाबाद् उत्तर प्रदेश यह गै-एमएस। कुनकर सोहा होम्स प्रा. लिमिटेड प्रजीकृत कार्योलय बी-22, गाजीपुर में है बाम-गाजीपुर दिल्ली-110096। त्ली-1100961 है मी-एमएस युमंकर सोडो होम्स प्रा. लिमिटेड का साइट ऱ्यालय प्लीट नेबर 4बीध, संक्टर 16 में है ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) नोएडा एक्सटेशन

201301 यह भी-मैसर्स मैरकॉट सोहो होम्स जा. लिमिटेड, जिसका कॉर्फेर कार्यालय थैं-68, सेक्टर-63 में है नोरख-201301. जबकि उपरेक्त नामित आवेदक ने रुपये की वसली के लिए ममला दर्ज किया है। 28,31,877/- (रुपये अधिइंस्. न फोल नंबर ०११—23748473)।

ट्रिब्यूनल के आदेश से रिजस्ट्रार के लिए

प्रथा को कायम नहीं रख सकेंगे।

) श्रीमती तरनजीत कौर पुत्र श्री। मुमेंद्र सिंह नियासी सी-67, जंगपुरा थी, नह दिल्ली-110014 यह थी -श्रीमती तरनजीत कौर पुत्र मुमेंद्र सिंह नियासी मुनेट नंबर 2006, 20थी मजिल, टायर-सी, मैनोरय, प्लॉट नंबर

नीएवा—201307 यह मी— श्री प्रीत मोहन सिंह नदा द्रख्यू/ओ श्री तरनजीत कौर कार्यालय का पता मेससी दिख्यी

(भारपना, नार्ज एकाटाल यह गी- एमएस कुमकर सोहो होम्स प्रा.। लिम्टिंड एक-106 सेक्टर-63 में अपना कीपीरेट कार्यालय रखते हुए नोएडा

इकतीस रूजार आर्ट सी सत्तर सात कंवल) आपके खिला और जबकि ट्रिब्यूनल की संतुष्टि के लिए यह दिखाया गया कि अपूर्वी सूंबा करना संसव नहीं है सामान्य तरीका। इस्हिल कि अपना स्वा करना स्मय गरा है सामान्य सरका। इस्तराज्य यह नोटिस विज्ञापन हात आपको एल.डी. के समझ उपस्थित हाने का निर्देश देते हुए दिया गया है। रजिस्ट्रार 09.10.2021 को सुबह 10.30 बजें। (अधिक जानकारी के लिए कृपया दीआरटी की वेबसाइट देखे डब्ल्डब्लूडब्लूड्रीयूनलजीओ.डी. व्यान दें कि इस ट्रियानल के संगव उपयुक्त दिन पर उपस्थि होने में आपकी विकलता के मामल में आपकी अनुपन्तिती मामले की सुमवाई एवं निर्णय किया जायेगा। इस पर मेरे हाथ और इस ट्रिब्यूनल की मुहर के तहता 1 अगस्त 2021 को विया गया है टिक्यूनल के आदेश है

> info@skylinerta.com, admin@skylinerta.com पर ईमेल करें। बोर्ड के आदेश से जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिये

> > पी.के. गोयल (निदेशक

स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 0002115

🏶 यात्रीगण कृपया ध्यान दें 🖘

महत्वपूर्ण सूचना

तथा कम्पनी (www.jtel.co.in) देखें।

आईडी को अद्यतन बनाये रखें।

दिनांक : 21.8.2021

सर्वे संबंधित की सूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्पेशल रेलगाड़ियों की समय-सारणी में दिनांक 10.09.2021 से परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इन सेवाओं की संशोधित समय-सारणी निम्नानुसार होगी:-

| | | | | | | 2.77 | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------------|---------|----------|--|--|
| | 04323/04 | 324 नई ि | देल्ली – र | रोहतक जं. – नई दि | ल्ली एक्स | प्रेस स्पेश | ल रेलगा | ड़ी | | |
| 1.5 | गाड़ी संख | या 04323 | | | | गाड़ी संख्या 04324 | | | | |
| वर्तमान समय परिवर्तित समय | | | स्टेशन | वर्तमान समय | | परिवर्तित समय | | | | |
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | | |
| | 10:45 | | 10:45 | नई दिल्ली | 15:55 | 0.000 | 15:45 | | | |
| 10:59 | 11:01 | 10:59 | 11:01 | दिल्ली किशन गंज | 15:30 | 15:32 | 15:11 | 15:13 | | |
| 11:14 | 11:16 | 11:14 | 11:16 | शकूर बस्ती | 15:16 | 15:18 | 14:57 | 14:59 | | |
| 11:24 | 11:26 | 11:24 | 11:26 | नाँगलोई | 14:59 | 15:01 | 14:39 | 14:41 | | |
| 11:37 | 11:39 | 11:37 | 11:39 | बहादुर गढ़ | 14:46 | 14:48 | 14:26 | 14:28 | | |
| 12:15 | | 12:20 | | रोहतक जं. | | 14:20 | | 14:00 | | |

रेलयात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त रेलगाडियों की विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के

सहित कोविड—19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के

लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in पर जायें अथवा NTES App देखें। नोटः रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि

रेलमदद वेबसाइट देखें:www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करे रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

क्रम ऋण खाता सं. ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/ पता

सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। आपकी सुविधा – हमारा ध्येय 🚆 हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 📇 [🕒 पर हमें फॉलो करें पंजी. कार्यालयः १वां तल, अंतरिक्ष भयन, २२, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

(Q) pab Housing

हरादुन जाखा कार्यालयः पीएनबी हाउभिण फाइनांस लिभिटेड, शॉप 🕏 ३०१ एवं ३०२, लक्ष्मी चैम्बर्स, ६०, राजपुर रोड, देहरादुन, पिन कोड: 248001, उत्तराखंड, फोन नं. 0135-2749900, ईमेल dehradun@pnbhousing.com हरिद्वार शाखा कार्यालयः पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, दिल्ली हरिद्वार मैन रोड, अरविन्दो आश्रम के बगल में, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार-249407

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, यथा-संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. (यहां के बाद ''पीएनबीएचएफएल'') ने **शॉप नं**. 301 **एवं** 302, **लक्ष्मी चैम्बर्स, 69, राजपुर रोड, देहरादून**-

248001 में स्थित देहरादून शाखा कार्यालय तथा **दिल्ली हरिद्वार मैन रोड, अरविन्दो आश्रम के बगल में, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार-249407** ग **स्थित हरिद्वार शाखा कार्यालय** द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'अधिनियम'' के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी किया था। उक्त मांग सुचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारंटरों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय-वस्त् मुलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सुचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सुचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतदुद्वार आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा।

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाय देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाय देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं

सूचना

| | | | तिथि | |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | | | | , 03.08.2021 को बकाया रु. 29,22,647.65 (रुपये उन्नतीर |
| | 216/337849 | नगर कॉलोनी, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248001, उत्तराखंड | 2021 | लाख बाईस हजार छः सौ सैंतालिस तथा पैसे पैंसठ मात्र) |
| गारन्ट | ररों का नामः एन-ए | ा, बंधक सम्पत्तिः खसरा नं. 228 घा, मौजा हरबंसवाला, प | गरगणा केर्न्द्र | ~ · ~ · · |
| 2. | 0021666000 | हीरा लाल एवं राम किशन, 10 केशव माधवपुरम, | | |
| | 2161 | सरस्वती विहार, डाक पत्थर, विकासनगर, देहरादून- | 2021 | बत्तीस हजार सात सौ दो तथा पैसे उन्नतीस मात्र) |
| | | 248198, उत्तराखंड | | |
| mia. | में का जाम महं मह | ा श्री मंद्राच नैशानी महान नं भी १२१ जोना हाँखोनी - | टाट्ट गट्या | विकास नाम हेटसहन उन्हासंह २४९१०९ |

गारंटरों का नाम एवं पताः श्री पंकज नैथानी, मकान नं. सी–121, टोन्स कॉलोनी डाक पत्थर, विकास नगर, देहरादुन, उत्तराखंड–248198 बिंधक सम्पत्तिः खसरा नं. 1244. मौजा जीवनगढ, विकास नगर, देहरादुन, उत्तराखंड-248198

3. HOU/HWR/ स्व. श्री जयमल सिंह के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों एवं 03 अगस्त, 03.08.2021 को रु. 10,17,344.55 (रु. दस लाख सत्तरह 0618/548904 हरप्रीत कौर गुरु कमल निर्माण ट्रेडर्स, खसरा नं. 521, हजार तीन सौ चौआलिस तथा पैसे पचपन मात्र) मैन रोड, राम मंदिर के निकट, टेहरी, विस्थापित, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249407

गारंटरों का नाम एवं पताः एनए, बंधक सम्पत्तिः प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 313 एम, टेहरी विस्थापित, एरिया रोशनाबाद, ग्राम सलेमपुर मेहदूद 1, परगण रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249407

4. HOU/DEH/1 ममता लूथरा एवं समृद्ध लूथरा, नं. 290/1, शिवालिक 03 अगस्त, 03.08.2021 को रु. 21,64,123.92 (रु. इक्कीस लाख चौंसठ हजार एक सौ तैईस एवं पैसे बानवे मात्र) 217/469065 एन्क्लेव, रेस कोर्स, देहरादुन-248001, उत्तराखंड

गारंटरों का नाम एवं पताः एनए, बंधक सम्पत्तिः खसरा नं. 112/7 तथा खसरा नं. 112/8, रेस कोर्स, ग्राम उद्दीवाला करणपुर, म्यूनिसिपल नं. 381/290/1 देहरादून, 248011, उत्तराखंड, 248001

5. HOU/HWR/ मनोज कुमार एवं लक्ष्मी देवी, सी/ओ मुन्नी देवी, सुभाष 03 अगस्त, 03.08.2021 को रु. 1765977.69 (रु. सत्तरह लाख 1020/823322 नगर, साईवव स्कूल के निकट, पनियाला, रुड़की, उत्तराखंड 2021 पैंसठ हजार नौ सौ सतहत्त एवं पैसे उन्हत्तर मात्र) गारंटरों का नाम एवं पताः एनए. बंधक सम्पत्तिः आवासीय मकान, खसरा नं. 1765, कष्णानगर, गली नं. 20, सलेमपर राजपतन, तहसील रुडकी, जिला

हरिद्वार, उत्तराखंड-247667 6. 002166600027 स्व. श्री रणवीर सिंह के सभी कानूनी उत्तराधिकारी, अपर 12 अगस्त, कंडोली, बैंक कॉलोनी, राजपुर रोड, देहरादून, 2021 अटठाईस हजार एक सौ सैंतालिस तथा पैसे छत्तीस मात्र) उत्तराखंड-248001

गारंटरों का नाम एवं पताः श्री चुन्नी लाल, ग्राम जीवनगढ़, पी.ओ. विकास नगर, देहरादून-248198, बंधक सम्पत्तिः खाता नं. 196, खसरा नं. 1712, मौजा, जीवनगढ़, पी.ओ. विकास नगर, देहरादून-248198

7. HOU/DEH/1 समीर जैम्स एवं रेखा जैम्स रानी ब्लॉक सी क्वार्टर नं. 03 अगस्त, 03.08.2021 को रु. 18,42,832.44 (रुपये अठारह लाख 016/322548 | 96, नेताजी नगर, दिल्ली बयालिस हजार आठ सौ बत्तीस एवं पैसे चौआलिस मात्र) गारंटरों का नाम एवं पताः एनए, बंधक सम्पत्तिः खसरा नं. 2853, मौजा रसूलपुर, परगणा पचवादून, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड-248198

8. HOU/DEH/1 स्वर्गीय श्री शिव कुमार के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को 12 अगस्त. 03.08.2021 को रु. 16,91,204.79 (रु. सोलह लाख 016/322910 और बबीता शर्मा 68 खोरा कॉलोनी, भारत नगर, खोरा, शिव इक्यानवे हजार दो सौ चार तथा पैसे उन्यासी मात्र)

सलेमपुर मेहदूद 1, परगणा रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत-247667 में स्थित है।

(प्राधिकृत अधिकारी), पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिये तिथि: 19.8.2021, स्थान: देहरादून एवं हरिद्वार

03.08.2021 को रु. 4,28,147.36 (रु. चार लाख

मांग सूचना तिथि को बकाया राशि

दुर्गा मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 गारंटरों का नाम एवं पताः एनए, बंधक सम्पत्तिः भू खंड नं. 169, प्लॉट नं. 49 एवं 50, खसरा नं. 312 एमआई जो टिहरी विस्थापित क्षेत्र, रोशनाबाद ग्राम